alIndiaSheller इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अचल संपत्ति के लिए कब्जा सूचना

जनसता

Home Loans पंजीकृत कार्यातयः प्लॉट-15, वर्गी मंजिल, सेक्टर-44, इंस्टीटबुशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुम्बई – 400 055 भारत वेबसाइट : www.yesbank.in ई-मेल : communications@yesbank.in सीआईएन : L65190MH2003PLC143249

आंचलिक कार्यालय पता : 5वां तल, मैक्स टावर, सेक्टर—16बी, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 सरफासी ऐक्ट की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित कर्जदार (रों) / सह-कर्जदार (रों) / गारंटर (रों) / बंधकदाता (ओं) ने उनके द्वारा बैंक से प्राप्त की गई सुविधाओं व मुलधन और ब्याज चुकाने में चुक की है और उनके सुविधा खाते अनार्जक आस्ति (एनपीए) की श्रेणी में सुचीबद्ध किए जा चुके हैं। उनको वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) की धारा 13(2) के तहत सूचनाएं उनके अंतिम ज्ञात पते पर जारी की गई थीं, परंतु वे अवितरित के रूप में वापस प्राप्त हो चुकी हैं और इसलिए उनको इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

खाता संख्या	ऋण का प्रकार	कर्जदारों, सह–कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	एनपीए तिथि सूचना तिथि
AFH00	खुशी	1. सुरेश चंदर पुत्र हरीश चंदर, पताः कुटनी रोड, निकट रामलीला मैदान, डाबर	₹. 2,222,502.93 / -	03-08-2025
700179	होम लोन सुविधा	कालोनी, पानीपत, हरियाणा, 132103 (कर्जदार), अन्य पता : श्मशान रोड, निकट	(रू. बाईस लाख बाईस हजार पांच सौ दो और पैसे	19082025
4673	3 ····	गुड्डू कार्पेट, देसराज कालोनी, पानीपत, हरियाणा, 132103 2 कटारा देवी पत्नी	हजार पाच सा दा आर पस तिरानवे मात्र)	
		सुरेश चंदर, पताः कुटनी रोड, निकट रामलीला मैदान, डाबर कालोनी, पानीपत,	19—08—2025 तक	
		हरियाणा, 132103 (सह—कर्जदार और / या बंधककर्ता) अन्य पता : श्मशान रोड, निकट गुड़डू कार्पेट, देसराज कालोनी, पानीपत, हरियाणा, 132103		

प्रतिभूत आस्ति का विस्तृत विवरण : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल संपत्ति खेवट नंबर 78//25/1 (1–16), 79//11/1 (5–16), 20/2 (5–16), किते 3 रकबा 13 कनाल 8 मरले का 18/2412 भाग बाकदर रकबा 2 मरले यानि 60 वर्ग गज, वाका पति मखदमजादगान दर आबादी डाबर कॉलोनी, नगर निगम, तहसील और जिला पानीपत, हरियाणा की सीमा के भीतर, कटारा देवी के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः 30 फीट, बाबू का प्लॉट, पश्चिमः 30 फीट, सरिता प्लॉट, उत्तरः 18 फीट 2 इंच, रोड, दक्षिणः 18 फीट 2 इंच, सोनू का मकान

उपरोक्त कर्जदार(रों) / सह–कर्जदार(रों) / गारंटर (रों) / बंधकदाता (ऑं) (जो भी लागु है) से एतदद्वारा उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान इस सुचना के प्रकाशन की तिथि से 6 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, 60 दिन की अवधि की समाप्ति के बाद, सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत आगे कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों और हमारे द्वारा वहन किए गए खर्चों सहित . सार्वजनिक नीलामी / बिक्री हेतु सूचना के प्रकाशन की तिथि से पूर्व चुका दी जाती है तो, बिक्री संचालित नहीं की जाएगी तथा प्रतिभूत आस्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी और उस प्रतिभृत आस्ति की बिक्री या हस्तांतरण के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

तिथि : 26-09-2025 स्थान : दिल्ली हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी) येस बैंक लिमिटेड

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड APRIGLOBAL

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापित बापट मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013, परिमंडल कार्यालय : 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली— 110060 माँग सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचनायें निर्गत की हैं, जिनमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता(ओं) ("उक्त ऋणकर्ता(ओं") को उन्हें निर्गत संबंधित माँग सूचना(ओं) में अंकित राशियों का, जो नीचे भी दी गई हैं, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त ऋणकर्ता(ओं) को एक बार पुनः सुचित किया जाता है कि वे इस सुचना के प्रकाशन से 60 दिवसों के अंदर उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रलेखों 🗸 आलेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋणानुबंध के अंतर्गत भुगतानयोग्य, यहां इसमें निम्नांकित राशियों का निम्नांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान तथा / अथवा वसूलीकरण की तिथि तक राशियों पर आकलित भावी लागूयोग्य ब्याज के साथ सीजीएचएफएल को भुगतान कर दें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभृति के रूप में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को उक्त ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सीजीएचएफएल के पास क्रमशः बंधककृत रखा गया है।

I	क्र.	ऋणकर्ता(ओं) /	माँग सूचना	प्रतिभूत परिसंपत्ति
l	सं.	गारंटर(रों) के नाम	तिथि एवं राशि	(अचल संपत्ति) का विवरण
I	1.	(ऋण खाता संख्या	10.09.2025	भूमि और भवन का वह समस्त टुकड़ा, मकान संख्या 11आई/ए–89, खसरा
I		LNHEAA1000125886 (पुराना)	₹. 19,44,415 / —	संख्या 1292 / 89, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (अर्थात 83.61 वर्ग मीटर) भगवती बाग,
ı		53000000511156 (नया) (आगरा	(02—सितंबर—25	मौजा – नरायच तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश – 282006,
I		शाखा) श्री पवन शर्मा (ऋणकर्ता) श्रीमती	के अनुसार)	सीमा:- पूर्व : यादराम फौजी का मकान, पश्चिम : रास्ता 20 फीट, उत्तर : पवन
۱		रूपवती (सह—ऋणकर्ता)		का प्लॉट, दक्षिण : रास्ता 20 फीट
		1		

यदि उक्त ऋणकर्तागण उपर्युक्तानुसार सीजीएचएफएल को भूगतान करने में विफल होंगे तो सीजीएचएफएल लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त ऋणकर्ताओं के संपूर्ण जोखिमों पर अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागयोग्य नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभृत परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उक्त ऋणकर्ताओं को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जाता है कि वे उपर्युक्त परिसंपत्तियों का सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमित के बिना विक्रय, पटटा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विरचित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिये दुष्प्रेरित करता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा

अथवा अर्थदंड दिया जायेगा। स्थान : दिल्ली हस्ता. / - (प्राधिकृत अधिकारी) कते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल दिनाँक : 26 / 09 / 2025

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED कॉपोर्रेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015 HINDUJA HOUSING FINANCE

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सुचना परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) के प्रावधान का संदर्भ लें] ई-मेल : auction@hindujahousingfinance.com संपर्क व्यक्तिः अरुण मोहन शर्मा - 8800898999 | ध्रुव विशष्ठ - 8806967651

तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सुचना। आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभत लेनदार) के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसका कॉपोरेंट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट, सैदापेट, चेन्नई - 600015 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभृत लेनदार को देय राशि की वसली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है' और 'जो कुछ भी है वहीं है' के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे 'नियम' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण

l	निरीक्षण की तिथि : 23.10.2025, ईएमडी की अंतिम तिथि :		.10.2025, बोली	वृद्धि राशि : रु.10,000/-	
ì	1 लैन/कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)	कुल बकाया राशिः रु. 10,14,121/-	आरक्षि	त मूल्यः रु. 23,47,920/-	
ı	DL/MNR/MNGR/A00000395.	मांग सूचना की तिथि तथा राशिः	क०	जे की तिथि एवं प्रकार:	
ı	1. श्री किशोर कुमार 2. श्री रविता रानी	18 जून, 2025 तथा रु. 10,91,807/-		17 मार्च, 2025 तथा	
Į	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 2,34,792/-	तिथि 18 जून, 2025 तक		सांकेतिक कब्जा	
संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 1740/1 गली नंबर 3 अंबेडगर पार्क भूपेन्द्र पुरी, मोदीनगर, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत – 201204					
ľ	DL/MNR/HPUR/A00000139.	कुल बकाया राशिः रु. ८,३१,९८९७	'-	आरक्षित मूल्यः रु. ४९,७८,४४०/	<u>'</u> -
ı	1. श्री अजय धामा 2. श्री जैन सिंह एवं 3. श्री मिथलेश मिथलेश	मांग सूचना की तिथि तथा राशिः 18 सितं	बर, 2024	कब्जे की तिथि एवं प्रकारः	
ı	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 4,97,844/-	तथा रु. 8,65,533/- तिथि 18 सितंबर, 2		अप्रैल, 2025 तथा सांकेतिक र	
ſ	संपत्ति का विवरणः गली नं.12, भूपेन्द्र पुरी चुन्ना भट्टी मोदीनगर, गली नं.12, भूपेन्द्र	पुरी चुन्ना भट्टी मोदीनगर, गली नं.12, भूपेन्द्र पुरी चु	न्ना भट्टी मोदीनगर, मे	ट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत -	
1	201204				

आरक्षित मूल्यः रु. 23,99,226/-DL/MNR/MNGR/A000000312. कुल बकाया राशिः रु. 13,57,953/-1. श्री सुभाष चंद 2. श्री अभिषेक सुभाष चंद एवं 3. श्री सुमन सुभाष चंद मांग सूचना की तिथि तथा राशिः 26 फरवरी, 2025 कब्जे की तिथि एवं प्रकार: तथा रु. 13,57,953/- तिथि 26 फरवरी, 2025 तक 27 अगस्त, 2025 तथा सांकेतिक कब्जा संपत्ति का विवरणः खसरा नंबर 387 सिकरी खुर्द नंद नगरी मोदीनगर, खसरा नंबर 387 सिकरी खुर्द नंद नगरी मोदीनगर मेट्रो, मोदीनार, उत्तर प्रदेश, भारत – 201204

DL/MNR/PLKH/A00000156. आरक्षित मूल्यरु. 42,32,250/-कुल बकाया राशिः रु. 14,24,025/-1. श्री अनुज 2. श्री सुनीता सुनीता मांग सुचना की तिथि तथा राशि: 26 फरवरी, 2025 कब्जे की तिथि एवं प्रकार: जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 4,23,225/ 27 अगस्त, 2025 तथा सांकेतिक कब्जा तथा रु. 20,90,884/- तिथि 26 फरवरी, 2025 तक

201206 DL/MNR/MNGR/A000000491 आरक्षित मल्यरु. 18.92.160/ 1. श्री नौसाद नौसाद 2. श्रीमती बानो बानो ांग सूचना की तिथि तथा राशि: 26 फरवरी, 2025तथा कब्जे की तिथि एवं प्रकार:26 अगस्त, जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,89,216/-रु. 10,67,237/- तिथि 26 फरवरी, 2025 तक 2025 तथा सांकेतिक कब्जा संपत्ति का विवरणः हाजरा मस्जिद, मुरादनगर के पास, हाजरा मस्जिद, मुरादनगर के पास, मेट्रो, मुरादनगर, उत्तर प्रदेश, भारत – 201206

संपत्ति का विवरणः खसरा नंबर 113 में स्थित ग्राम सहविसवा परगना जलालाबाद मरादनगर, तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद, मेटो, मरादनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

DL/KNR/RANJ/A00000012. कुल बकाया राशि: रु. 23,89,285/-आरक्षित मूल्यरु. 26,80,875/-1. श्री गफ्फार अहमद 2. श्री फरीदा बेगम और 3. श्री परवेज अहमद मांग सचना की तिथि तथा राशिः 8 जुलाई, 2024तथा कब्जे की तिथि एवं प्रकार: रु. 8,84,189/- तिथि 8 जुलाई, 2024 तक 23 नवम्बर, 2024 तथा सांकेतिक कब्जा संपत्ति का विवरणः प्लॉट नंबर-78 खसरा नंबर-445. क्षेत्र आकाश नगर फेज-3. ग्राम रसलपर सिकरोडा गाजियाबाद, मेटो. गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत -201015 DL/KNR/RANJ/A000000372. कुल बकाया राशिः रु. 9,76,782/-आरक्षित मूल्यरु. 26,80,800/-

मांग सुचना की तिथि तथा राशिः 16 अगस्त, 2024

तथा रु. 9,36,332/- तिथि 16 अगस्त, 2024 तक

संपत्ति का विवरणः खसरा नंबर 212 प्लॉट नंबर महमुदाबाद, गाकुल धाम कॉलोनी जलालाबाद गाजियाबाद, शिव मंदिर, ग्रामीण, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत –201015 आरक्षित मूल्यरु. 33,02,370/-कुल बकाया राशिः रु. 13,41,248/-DL/MNR/MNGR/A00000019.. 1. श्री कपिल तेवतिया 2. श्री सचिन तेवतिया एवं 3. श्री सुवाला ब्रहम सिंह मांग सूचना की तिथि तथा राशि: 12 जुलाई, 2024 कब्जे की तिथि एवं प्रकार:

1. श्री जगदेव सिंह 2. श्रीमती मंजू सिंह

जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 1,44,180/

आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिन का नोटिस भी है।

श्वान : गाजियाबाद दिनांक: 26.09.2025

जमा धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 3,30,237/ तथा रु. 14,83,679/- तिथि 12 जुलाई, 2024 तक 23 अप्रैल. 2025 तथा सांकेतिक कब्जा संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 190, गंगा विहार कॉलोनी, मुरादनगर, जलालाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद, गाजियाबाद, मेटो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

. वेशेष निर्देश/चेतावनीः बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चुक/विफलता (इंटरनेट अनुगेध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था√विकल्प जैसे बैक-अप बिजली आपुर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें तािक वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापुर्व

नियम और शर्तें: - 1. संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है यही है', 'जो कुछ भी है वहीं है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपति के बिना है। 2. संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (जैसे ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट सीमा और माप) प्रतिभत ऋणदाता की सर्वोत्तम जानकारी के अनसार बताया गया है और प्रतिभत ऋणदाता किसी भी त्रिट, गलत बयानी या चक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं। 3. प्रतिभत ऋणदाता हारा जारी ई-नीलामी बिक्री नीटिस आम जनता को अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक आमंत्रण है और यह प्रतिभृत ऋणदाता की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नह करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रतिभृत ऋगदाता के साथ स्वामित्व विलेखों का अवलोकन करें और बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के स्वामित्व और वर्तमान स्थिति तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के बारे में स्वयं स्वतंत्र पृछताछ/इयु डिलिजेंस करें। 4. नीलामी/बोली केवल auction@hindujahousingfinance.com और https://www.bankeauctions.com वेबसाइट के माध्यम से 'ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड' के माध्यम से होगी या सेवा प्रदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई नीलामी होगी, जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगी। 5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभृत ऋगदाता/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, स्वयं के सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 6. ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पताः सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 68 सेक्टर-44, गुड़गांव, हरियाणा-122003, (संपर्क व्यक्तिः मिथलेश कुमार, फोन नंबर 7080804466, ईमेलः delhi@c1india.com, सहायता मोबाइल नंबरः- 7291981124/1125/1126) से संपर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छक बोलीदाताओं को अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर पहले से ही पंजीकृत करवाना चाहिए और युजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। इच्छक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त करने के तरंत बाद ही अपना पासवर्ड बदलें। ८. ई–नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छक बोलीदाताओं को प्रतिदेय जमा धरोहर राशि (ईएमडी) अर्थात आरक्षित मुल्य का 10% (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) जमा करनी होगी जो इच्छक बोलीदाताओं द्वारा 'हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड डाफ्ट / एनईएफटी / आरटीजीएस के माध्यम से देय होगा। 9. इच्छक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप https://www.bankeauctions.com/ तथा auction@hindujahousingfinance.com पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी को संबोधित करके कार्यालय एफ-८, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद - 201010 में जमा करना चाहिए। सीलबंद लिफाफे पर 'ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए बोली - संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में' लिखा होना चाहिए। 10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धत की हैं और प्रतिभत लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भगतान किया है) के विवरण की पृष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन बोलीदाताओं को ई–नीलामी बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन इंटर–से बोली / नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनमति दे सकें। 11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली से शरू होगी। परस्पर बोली प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक बोली में 10 मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि बोली अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा। 12. एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जाएगा। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से लगाई गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही लगाई गई मानी जाएंगी। 13. ई-नीलामी कार्यवाही के समापन के तरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता के रूप में घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को उसकी मेल आईडी arunmohan.sharma@hindujahousingfinance.com और सेवा प्रदाता दोनों को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा लगाई गई बोली की अंतिम राशि की पृष्टि करेगा। 14. सफल बोलीदाता को बिक्री का संचालन करने वाले प्राधिकत अधिकारी के पास तत्काल अर्थात उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले. जैसा भी मामला हो. बिक्री मल्य की राशि का पच्चीस प्रतिशत जमा करना होगा, जिसमें जमा की गई धरोहर राशि, यदि कोई हो, शामिल है। खरीद मृल्य की शेष राशि अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले देय होगी। 15. यदि सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चुक होती है, तो बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपंति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली राशि के शेष को जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है। 17. सफल बोलीदाता लागू टीडीएस (बिक्री आय में से) का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और किसी भी अन्य प्राधिकरण बकाया (यदि कोई हो) का भुगतान सफल बोलीदाता को बिक्री प्रमाण पत्र जारी करने से पहले करना होगा। संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए बोलियाँ लगाई जाएँगी। 19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाएगा जब संपूर्ण खरीद मुल्य/बोली राशि जमा कर दी जाएगी तथा सभी करों/प्रभारों के भूगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। 20. परिवहन, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकरिमक शुल्क के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। 21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद कर सकता है। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थिगत की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। 22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 23. बोली प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के लिए बाध्य माना जाएगा। 24. अधिक जानकारी और पृछताछ के लिए, कृपया हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शाखा कार्यालय, कार्यालय एफ-8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद - 201010 में प्राधिकृत अधिकारी, ध्रुव वशिष्ठ - 8806967651 से संपर्क करें। 25. यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानती को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री

हस्ता./ प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जे की तिथि एवं प्रकार:

07 जनवरी, 2025 तथा सांकेतिक कब्जा

PUBLIC NOTICE NOTICE are hereby given that the below mentioned Authorised Person are no longer affiliated as Authorised Person of Kotak Securities Limited Exchange Registration Address of Authorised Trade Authorised Numbers of Name Person Person Name **Authorised Person** NSE - AP029175841 2-I-8 R C, Vyas Nagar, Neelima Neelima Bhilwara-311001 Baldwa Baldwa BSE - AP0106730118079 Plot No 73, Shyam Nagar Gali No 1 NSE - AP0291106751 Kamia Kamla Pal Link Road Jodhpur Nandanwan Sarwal BSE - AP01067301109130 Sanwal Jodhpur-342008 B 49 Ganesh Nagar, Behind Ganesh Suresh Chander Suresh Chander NSE - AP0291117401 Temple, Jawahar Nagar, Sharma BSE - AP01067301127497 Jaipur-302004 flease note that above mention Authorised Person (AP) are no longer associated with us. Any person

nenceforth dealing with above mention AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned AP. Kotak Kotak Securities Limited, Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla a Secretar Complex, Bandra (E), Mumbai 400051, CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone

No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430, Website: www.kotak.com / www.kotaksecunites.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member o NSE. BSE. MSE. MCX & NCDEX). AMFI ARN 0164, PMS INP000000258 and Research Analyst INH000000586. NSDL/CDSL: : IN-DP-629-2021. Compliance Officer Details: Mr. Hiren Thakkar Call: 022-4285 8484, or Email: ks.compliance@kotak.com

जबकि, अधोहरताक्षरी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड कॉपॉरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन (प्रतिमृति) हित अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है, खाते के सामने अंकित तिथि को एक मांग नीटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता और संपत्ति के मालिक / जमानतदार को उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के शीतर राशि चुकाने का आहवान किया गया है। बुँकि संपत्ति के स्वामी और अन्य पक्ष राशि युकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीये उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को संवित किया जाता है कि नीये हस्ताक्षरकर्ता ने उत्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखत तिक्षियों को नीचे वर्णित संपत्ति / संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। अब विशेष रूप से उजारकर्ता और जाम जनता को एतदवारा संपत्ति / संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति ∕ संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन नीचे वल्लिखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉपॉरेशन लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। आरोपित / बंधक संपत्ति का विकरण मांग नोटिस की तिथि, मांग कब्जे की तिथि जबारकर्ता / गारंटर (संपत्ति का मालिक) का संपत्ति का सभी भाग जिसमें शामिल है) नाम और ऋण खाता संख्या नोटिस की तिथि तक देव राशि बी / बीमती शिला साविजी पानी बी शिव गाटा संख्या 1299 का पूरा टुकडा, बोजफल 33.49 वर्ग मीटर मांग सुचना 02-06-2025 प्रतीकात्मक शंकर, श्री / श्रीमती विनोदकुमार गुपा पुत्र शिव (360 वर्ग फीट) ग्राम बेलसर परगना दीक्षित तहसील तरवग. क. 1656377 / – (केंवल सोलह शंकर श्री/श्रीमती शिव शंकर पुत्र श्री ज गोंडा युपी 271401, सीमा:- पूर्व-जगदंश पंडित की किंग्रा वामीन खाली करें, पश्चिम-कासिम का मकान और टिनसाइब लाख पचपन हजार तीन सी सतहत्तर रूपये) 1 पता 384 ए बेलसर बेलसर, गोंडा उत्तर प्रदेश खाली करें. उत्तर-5 मीटर कच्चा रास्ता, दक्षिण-मुन्ना वारी जून 2025 तक देय 11 जून 2025 से व्याज और 271401 साथ ही, पाटा संख्या 1299 शाम की जमीन भूगतान की तिथि तक अन्य शुल्क एवं लागत

अरम खाला संख्या LAFZVLLONS000005091831/AP-10217818 स्थान :- गाँडा विनांक :-28.09.2025 इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए (प्राधिकृत अधिकारी) किसी भी प्रश्न के लिए कृपवा श्री सुधीर तोमर (+91 9818460101) से संपर्क करें।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES OR UNITS NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND "NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE", AND TOGETHER WITH BSE, THE "STOCK EXCHANGES") IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS")

बेलसर, परगना दीक्षित तहस्तील तरबर्गज, गाँडा उत्तर प्रदेश- 271401





QR code to view the Draft Red Herring Prospectus)



RKCPL LIMITED

(Formerly known as Ram Kumar Contractor Private Limited)

Our Company was originally incorporated as 'Ram Kumar Contractor Private Limited' as a private limited company under the Companies Act, 1956, pursuant to certificate of incorporation dated June 7, 2013 issued by the Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi and Haryana at New Delhi. Subsequently, pursuant to resolutions dated June 6, 2025 and June 7, 2025 passed by our Board and Shareholders, respectively, the name of our Company was changed to 'RKCPL Private Limited' and a fresh certificate of incorporation dated June 16, 2025, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. Further, pursuant to resolutions dated June 18, 2025 and June 19, 2025 passed by our Board and Shareholders, respectively, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to, 'RKCPL Limited', and a fresh certificate of incorporation dated June 26, 2025, was issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. For details of changes in the registered office of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 250 of the draft red herring prospectus dated September 24, 2025 ("DRHP").

Corporate Identification Number: U45200HR2013PLC049491

Registered Office: SCF 60, Sector 8, Panchkula - 134 109, Haryana, India Corporate Office: DLF Corporate Greens, Tower 3A, 4th floor, Southern Peripheral Road, Sector-74A, Narsinghpur, Gurgaon - 122 004, Haryana, India Contact Person: Meenu Gupta, Company Secretary and Compliance Officer, Telephone: +91 172 3570082, E-mail: compliance@rkcpl.ltd, Website: www.rkcpl.ltd

OUR PROMOTERS: RAM KUMAR GOYAL, NARESH KUMAR AND KRISHAN KUMAR GOYAL

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF RKCPL LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹12,500.00 MILLION ("OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹7.000.00 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [●1 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("OFFERED SHARES") AGGREGATING UP TO ₹5,500.00 MILLION ("OFFER FOR SALE") COMPRISING UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹2.750.00 MILLION BY NARESH KUMAR AND UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹2.750.00 MILLION BY KRISHAN KUMAR GOYAL ("SELLING SHAREHOLDERS", AND SUCH EQUITY SHARES, "THE OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (CONSTITUTING UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (THE "EMPLOYEE RESERVATION PORTION"). OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS. MAY OFFER A DISCOUNT OF UP TO [●1% (EQUIVALENT OF ₹[●1] PER EQUITY SHARE) TO THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING UNDER THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION ("EMPLOYEE DISCOUNT"). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER

AND THE NET OFFER SHALL CONSTITUTE [●]% AND [●]%, RESPECTIVELY OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER ISSUE OF SPECIFIED SECURITIES. AS MAY BE PERMITTED UNDER THE APPLICABLE LAW, OF UP TO ₹1.400.00 MILLION. AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS WITH THE ROC ("PRE-IPO PLACEMENT"). THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RHP AND PROSPECTUS.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as

The Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contacts (Regulation) Rules, 1957 ("SCRR"), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, through the Book Building Process wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs" and such portion referred to as "QIB Portion"), provided that our Company, in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which allocation is made to Anchor Investors ("Anchor Investor Allocation Price"), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to all QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹0.2 million and up to ₹1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Investors and not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily use the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of UPI Bidders, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank(s) under the UPI Mechanism, as applicable, to the extent of the respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For further details, see "Offer Procedure" beginning on page 431 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated September 24, 2025, with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and with the Stock Exchanges. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges has been made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of publication of this public announcement by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at, www.bseindia.com and www.nseindia.com, on the website of the Company at www.rkcpl.ltd; and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e., Equirus Capital Private Limited and Anand Rathi Advisors Limited at www.equirus.com and www.anandrathiib.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the date of publication of this public announcement.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus.

Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page 32 of the DRHP. Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus ("RHP") has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as

there may be material changes in RHP from DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges. For details of the share capital and capital structure and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled "Capital Structure" on page 89 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the

section titled "History and Certain Corporate Matters – Brief his	story of our Company" on page 250 of the DRHP.	
BOOK RUN	REGISTRAR TO THE OFFER	
🥞 equirus	ANANDRATHI	MUFG
Equirus Capital Private Limited	Anand Rathi Advisors Limited	MUFG Intime India Private Limited
Unit No. 2601B, 26th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N. M. Joshi Marg, Lower Parel,	11th Floor, Times Tower, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,	(formerly known as Link Intime India Private Limited) C-101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli West,
Mumbai - 400 013, Maharashtra, India	Mumbai - 400 013, Maharashtra, India	Mumbai - 400 083, Maharashtra, India
Telephone: +91 22 4332 0700	Telephone: +91 22 4047 7120	Telephone: +91 81081 14949
E-mail: rkcpl.ipo@equirus.com	E-mail: rkcpl.ipo@rathi.com	E-mail: rkcpl.ipo@in.mpms.mufg.com

SEBI Registration Number: INM000011286 SEBI Registration Number: INM000010478 All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

Website: www.anandrathiib.com

Investor grievance e-mail: grievance.ecm@rathi.com

Contact person: Sakshi Manhas/ Shrihari Vyas

For **RKCPL LIMITED** On behalf of the Board of Directors

Company Secretary and Compliance Officer

Place: Panchkula, Haryana

Date: September 25, 2025

Website: www.equirus.com

Contact person: Jenny Bagrecha

Investor grievance e-mail: investorsgrievance@equirus.com

Website: in.mpms.mufg.com

Contact person: Shanti Gopalkrishnan

SEBI Registration Number: INR000004058

Investor grievance e-mail: rkcpl.ipo@in.mpms.mufg.com

RKCPL LIMITED (Formerly known as Ram Kumar Contractor Private Limited) is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI and the Stock Exchanges. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.rkcpl.ltd; and on the websites of the Book Running Lead Managers ("BRLMs"), i.e., Equirus Capital Private Limited and Anand Rathi Advisors Limited at www.equirus.com and www.anandrathiib.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "Risk Factors" beginning on page 32 of the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, when filed, for making investment decision.

The Equity Shares offered in the Offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("U.S. Securities Act"), or any other applicable law of the United States and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Adfactors

Meenu Gupta